

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2024-25	सभी अनुसूचित बैंक			2024-25	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
		2025		2026		2025		2026
		जन.	दिसं.	जन.		जन.	दिसं.	जन.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	208	208	197	197	135	135	121	121
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	458011	454438	464928	468420	451305	448851	456940	459585
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	315675	283393	347494	344451	309414	278365	340111	336474
1.2 बैंकों से उधार राशि	112027	140182	84135	81308	111976	139965	84010	81053
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	30310	30863	33298	42662	29916	30521	32820	42057
2 अन्य के प्रति देयताएं	25053097	24925459	27289301	27450766	24557481	24441212	26751129	26914261
2.1 कुल जमाराशियाँ	23055487	22955228	25374561	25398630	22580601	22489507	24857499	24881954
2.1.1 माँग	2748263	2720203	3327811	3194033	2698049	2672172	3274729	3141415
2.1.2 मीयादी	20307224	20235026	22046749	22204597	19882552	19817335	21582770	21740540
2.2 उधार	920568	898159	830784	920813	915248	893564	825578	916090
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	1077042	1072072	1083957	1131324	1061632	1058140	1068051	1116217
3 रिज़र्व बैंक से उधार	311466	256989	168974	136073	311466	256989	168974	136073
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	311466	256989	168974	136073	311466	256989	168974	136073
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	985044	1040685	813197	856579	964289	1019995	796077	838641
4.1 उपलब्ध नकदी	84399	98194	85863	84875	81874	95912	83460	82350
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	900645	942491	727334	771704	882415	924083	712617	756290
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	432645	394376	503502	515936	348496	321056	412259	424652
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	273720	251177	336346	343322	215801	198663	271662	278787
5.1.1 चालू खाते में	13239	12679	17232	12231	10619	10105	14383	9588
5.1.2 अन्य खातों में	260481	238498	319113	331091	205182	188558	257279	269199
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	44772	34496	54657	52274	25838	20195	36097	35468
5.3 बैंकों को अग्रिम	43856	42801	37200	38975	39504	39363	35292	35428
5.4 अन्य आस्तियां	70296	65903	75299	81365	67353	62835	69208	74968
6 निवेश	6850574	6785965	7059512	6990918	6697928	6633890	6884983	6816555
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6842024	6777698	7044429	6976618	6697298	6633347	6884483	6816054
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	8550	8267	15083	14301	630	544	500	500
7 बैंक ऋण	18708286	18512453	20814556	20965920	18243972	18053607	20323554	20475237
7ए खाद्यान्न ऋण	87145	105577	139946	141269	36531	54961	87972	89295
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	18370704	18180682	20406977	20553950	17909851	17725261	19917888	20065187
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	76523	76574	97113	98715	74963	74880	96940	98704
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	222320	216630	272764	276782	221059	215511	271627	275480
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	15357	16870	13827	13197	15122	16645	13616	13002
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	23382	21696	23874	23275	22977	21310	23483	22865

टिप्पणी: 1 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के अनुसार, 15 दिसंबर 2025 से 'पखवाड़े' की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है। अब यह हर दूसरे शुक्रवार के बजाय महीने की 15 तारीख और महीने के अंतिम कैलेंडर दिन को माना जाएगा।